

次应移印按彼脐中。想风轮其形圆黑色。诵七遍真言曰。

oṃ, nābhī kālikā vāta-maṇḍaliye svāhā.

喻 拿_(引)皮_(引) 嘎_(引)利嘎_(引) 哇_(引)达-曼_(卷)达_(卷)利_(引)耶 斯哇_(合、引)哈_(引)

ॐ नभिकालिका वातमण्डलि ये स्वहा

次应以大印加持彼两脚。想迦楼罗诵真言曰。

oṃ, garuḍa pakṣi-rājya-pādāya svāhā.

喻 嘎噜_(弹)达_(卷) 巴格悉_(合、卷)-喇_(弹、引)积呀_(合)-巴_(引)达呀 斯哇_(合、引)哈_(引)

ॐ गरुडपक्षिराज्या पादाय स्वाहा

次应以大印诵甲冑真言。加持童女遍身旋转。真言曰。

oṃ, kanyā-kumārī gātrā kavacaya svāhā.

喻 嘎尼呀_(合、引)-古吗_(引)哩_(弹、引) 嘎_(引)得喇_(合、弹、引) 嘎哇加呀 斯哇_(合、引)哈_(引)

ॐ कन्याकुमारी गात्रा कवचये स्वाहा

行者次应自身为魔醯首罗天。三目头冠瓔珞庄严。头冠上有佛半月。项上青。十八臂。手持种种器仗。以龙为绅线。角络系。又彼涂血写及。须臾顷观自身已。次应以大印护彼童女一百八命节。真言曰。

oṃ, sarva gātry-aṅga-pratyāṅga vyathā śūlaṃ

喻 萨勒_(弹)哇_(合) 嘎_(引)得哩_(合、弹)-昂嘎-波喇_(合、弹)-滴阳_(合)嘎 微呀_(合)它_(引) 修_(引)浪

śamanaye svāhā.

霞吗拿耶 斯哇_(合、引)哈_(引)

ॐ सर्वगात्राङ्गप्रत्याङ्ग व्यथा सुलाम्

结其大印及诵真言。遍身旋绕加持。则护一百八种命节。

次又以大印。真言加持花香及阏伽等。

次又以大印真言结十方界。则应对此童女前。诵魔醯首罗使者真言曰。

hṛd-cetana garuḍa pakṣi-rājya pra-veśa

河里_(合、卷)得_(半)-皆达拿 嘎噜_(弹)达_(卷) 巴格悉_(合、卷)-喇_(弹、引)积呀_(合) 波喇_(合、弹)-微霞

pra-veśa antar-gata hṛdaya cetanī

波喇_(合、弹)-微霞 安达勒_(弹、半)-嘎达 河里_(合、卷)达呀 皆达尼_(引)

kanyā-kumāry anu-praveśa badhnati badhnati,

嘎尼呀_(合、引)-古吗_(引)哩_(弹) 阿奴-波喇_(合、弹)微霞 巴特拿_(合)滴 巴特拿_(合)滴

